

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के भविष्य पर चर्चा करने के लिए ऑटोमोटिव फोरम का आयोजन किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (23 फरवरी, 2022) – पिछले सप्ताह, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के महत्व के बारे में चर्चा करने के लिए और सरकार के सभी महकमों के द्वारा स्टेलैंटिस ब्रैम्पटन असेम्बली प्लांट (Stellantis Brampton Assembly Plant) में निवेश की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, ब्रैम्पटन ऑटोमोटिव फोरम (Brampton Automotive Forum) का आयोजन किया।

इस फोरम में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) के मेम्बर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट (Economic Development) का स्टाफ, मंत्री, लोकल एम.पी. (MP) और एम.पी.पी. (MPP) शामिल हुए, जिन्होंने ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और ओनटैरियो तथा कैनैडा की व्यापक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के भविष्य के बारे में चर्चा की।

ब्रैम्पटन में स्टेलैंटिस (Stellantis) फैसिलिटी, ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सहारा है और यह लगभग 3,000 मैनुफैक्चरिंग नौकरियां प्रदान करते हुए, लोकल अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित करती है। यह पूरे प्रांत में, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स और ट्रकिंग कंपनियों तथा एच.वी.ए.सी. (HVAC) तथा इलेक्ट्रिकल कंपनियों के साथ कई अप्रत्यक्ष नौकरियां भी प्रदान करती है। यह अनुमान है कि एक ऑटोमोटिव फैसिलिटी में प्रत्येक एक नौकरी के लिए, पांच से छह अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होती हैं।

ब्रैम्पटन का एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग (Advanced Manufacturing) सेक्टर, प्रत्येक इंडस्ट्री में सहयोग, साझेदारियों और इनोवेशन के लिए आधार है। यह रोजगार के द्वारा ब्रैम्पटन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो सिटी के लगभग एक तिहाई कार्यबल के लिए जिम्मेदार है। ब्रैम्पटन के एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का 23 प्रतिशत कार्यबल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है।

ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इस वेबसाइट: www.investbrampton.ca पर जाएं।

संक्षिप्त तथ्य

- ब्रैम्पटन की स्टेलैंटिस फैसिलिटी, अपने ग्लोबल ऑपरेशंस में केवल एकमात्र प्लांट है, जो डॉज चार्जर्स (Dodge Chargers), डॉज चैलेंजर्स (Dodge Challengers) और क्रिस्लर 300 (Chrysler 300) का उत्पादन करती है।
- ब्रैम्पटन में बनने वाली कारों में से 90 प्रतिशत से अधिक निर्यात की जाती हैं, जिनमें से अधिकतर अमेरिका (U.S.) में जाती हैं।
- ब्रैम्पटन में ऑटोमोटिव पार्ट्स मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कई बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें शामिल हैं, मैग्ना (Magna), मार्टिनरिया (Martinrea), ए.बी.सी. टेक्नोलॉजीस (ABC Technologies) और कई अन्य के स्वामित्व वाली फैसिलिटीज।

हवाले

“ब्रैम्पटन में हमारी स्टेलेटिस फैसिलिटी के द्वारा सहायता प्राप्त ऑटोमोटिव श्रेष्ठता का गौरवमय इतिहास है, जो लगभग 3,000 अच्छी तनखाह वाली मैनुफैक्चरिंग नौकरियां और प्लांट में प्रत्येक एक नौकरी के लिए हमारी कम्युनिटी में अनुमानित पांच से छह नौकरियां प्रदान करती है। यह स्पष्ट है कि ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक वाहन की ओर आगे बढ़ रही है और अपने बड़े तथा इनोवेटिव एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के साथ – ब्रैम्पटन – को इस बदलाव का हिस्सा बनने की जरूरत है। मैं, फेडरल और प्रोविंसियल सरकारों में हमारे साझेदारों को, स्टेलेटिस के ब्रैम्पटन के प्लांट में निवेश सुरक्षित करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का अनुरोध करता हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन का एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर, ब्रैम्पटन की सभी इंडस्ट्रीज में सहयोग, साझेदारियों और इनोवेशन के लिए आधार है, जो रोजगार के द्वारा हमारे शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करता है। अनुमान है कि स्टेलेटिस फैसिलिटी अकेली ही, अपने तरीके से प्लांट में और सप्लाई चेन के द्वारा 15,000 से अधिक नौकरियां प्रदान करती है। अब हमें ब्रैम्पटन के ऑटोमोटिव भविष्य के लिए, स्टेलेटिस फैसिलिटी में निवेश सुरक्षित करने हेतु, इकट्ठे मिलकर काम करने की जरूरत है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन फैसिलिटीज के लिए लंबी-अवधि के निवेश संबंधी फैसले किए जा रहे हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम अवसरों को हाथ से न जाने दें, सरकार के सभी महकमों के लिए इकट्ठे मिलकर काम करना आवश्यक है। स्टेलेटिस ब्रैम्पटन में अवॉर्ड-विजेता प्लांट है और अपने उत्पादों के लिए काफी प्रसिद्ध है। हमारे साझेदारों के साथ मिलकर काम करते हुए हमें, हमारी लोकल अर्थव्यवस्था और कैनेडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को लाभ पहुंचाने के लिए, स्टेलेटिस ब्रैम्पटन असेम्बली प्लांट में निवेश सुरक्षित करने की उम्मीद है।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“उत्तरी अमेरिकी मार्किट, उच्च किस्म के कार्यबल और अवॉर्ड-विजेता मैनुफैक्चरिंग तक अपनी रणनीतिक पहुंच के साथ ब्रैम्पटन, सिटी के एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की सहायता के लिए रणनीतिक रूप से स्थापित है। हमारा इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस, ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सहारे – स्टेलेटिस – और हमारी लोकल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाले एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को सहयोग देना जारी रखेगा।”

- रिचर्ड फॉरवर्ड (Richard Forward), कमिश्नर, प्लानिंग, बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन असेम्बली में यूनिफोर के मेम्बर, सबसे अच्छी किस्म के और दुनिया के सबसे अधिक खोजे जाने वाले कुछ वाहन बनाते हैं और हमारी फैसिलिटी, जारी उत्पाद अध्यादेशों और नए निवेशों के लिए अच्छी स्थिति में है। इस प्लांट के सामने आने वाली चुनौतियां, कैनेडा के ऑटो प्लांट्स के सामने आने वाली चुनौतियों से अलग नहीं हैं, इनमें शामिल हैं, कमज़ोर ग्लोबल सप्लाई चेन्स और इलेक्ट्रिफिकेशन में बदली। हमें पता है कि सक्रिय सरकारी सहायता, कम्युनिटी भागीदारी और श्रमिक एकजुटता के साथ, ब्रैम्पटन में ऑटो सेक्टर के लिए, लंबा और सुनहरा भविष्य है।”

- *डैनी प्राइस (Danny Price), प्रेजिडेंट, यूनिफोर लोकल 1285*

“हमारी सरकार, हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर को पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में इलेक्ट्रिफिकेशन में लीडर बनते देखना चाहती है। हम इसे असलियत बनते देखने के लिए सब कुछ करेंगे। सेक्टर में हमारे जारी निवेशों के साथ, हम एक मज़बूत और स्थिर कैनेडियन बैटरी ईकोसिस्टम बनाने के लिए अधिक अवसर ढूँढना तथा अच्छी तनख्वाह वाली ग्रीन नौकरियां पैदा करना जारी रखेंगे। स्टेलेटिस ब्रैम्पटन असेम्बली प्लांट, हमारी सरकार के लिए हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा और हमारी टीम, इस फैसिलिटी के लिए भविष्य सुरक्षित करने हेतु बिना थके काम करना जारी रखेगी।”

- *एंडी फिल्मोर (Andy Fillmore), एम.पी. मिनिस्टर ऑफ़ इनोवेशन, साइंस एंड इंडस्ट्री के पार्लियामेंटी सेक्रेटरी*

“ब्रैम्पटन में स्टेलेटिस असेम्बली प्लांट, कम्युनिटी और देश के लिए नींव का पत्थर है। हम उस विरासत को कैनेडियन इंडस्ट्री तथा मोबिलिटी की अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- *फ्लावियो वोल्प (Flavio Volpe), प्रेजिडेंट, ऑटोमोटिव पार्ट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ़ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca